

Dynamic Portfolio Management & Services Ltd.

Regd. Office: 1403, Vikram Tower 16, Rajendra Place, New Delhi-110008,
Phone: 9017255300 Website: www.dynamicwealthservices.co.in,
Email: dpms.kolkata@gmail.com, CIN: L74140DL1994PLC304881

DATE: 12.11.2025

To,
BSE Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Reg.: Scrip Code 530779

Subject: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended September 30, 2025, published in Business Standard (English) & Hari Bhoomi (Hindi) Newspaper dated 11 November, 2025. The Results were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on Monday 10 November, 2025.

This is for your kind information & records.

For Dynamic Portfolio Management Services Limited


Rajesh Gupta
Managing Director

Date: 12.11.2025

Place: New Delhi

PUBLIC NOTICE

I, Amit Guruh Sachdeva, SEBI Registered Investment Adviser, have initiated the process of surrendering my SEBI Investment Adviser license with registration No. INA100007745 and BSE Enlistment No. 1466. Aggrieved parties may lodge their grievances at <https://scores.sebi.gov.in> within 30 days of the date of the notice. Please note that I will be continuing with my Research Analyst licence number granted by SEBI. The above is for your kind attention please.

Sd/-
Amit Guruh Sachdeva
amitguruhsachdeva@gmail.com
Date: 11.11.2025




Aadhar Housing Finance Ltd.
(CIN: L66010KA1990PLC011409)
Reg. Office: 2nd Floor, No. 3, JVT Towers, 8th A Main Road, Sampangi Rama Nagar, Hudson Circle, Bengaluru, Karnataka-560027. E-mail: customercare@aadharhousing.com

PUBLIC NOTICE

This is to notify the General Public, Customers and Depositors of the Company - **Aadhar Housing Finance Limited**, that one branch of the Company currently located at 712, 7th Floor, GD+ITL Tower, Plot No. B-08, Netaji Subhash Place, Near D-Mall, Pitampura, District- Delhi, New Delhi-110034, will be relocated and shifted to new office at premises situated at Office No.307, Plot-18, Vikas Surya Shopping Complex, Mangalam Place, Sec-3 Rohini, Near M2K Cinema, Dist- Northwest Delhi, New Delhi-110085, after 90 days of publication of this notice, due to additional space requirements and administrative reasons. Please refer to the official website <https://aadharhousing.com/#> or Toll-Free number 18003042020 or visit your nearest office for any further assistance/information.

Date : 10-11-2025

Sd/-
Aadhar Housing Finance Limited



ASSETS CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD. (ACRE)
CIN : U65993DL2002PLC115769
Regd. Office : 14th Floor, EROS Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019
E-mail : acre.arc@acreindia.in Website : www.acreindia.in
Corporate Office : Unit No. 502, C Wing, ONE BKC, Plot No. C – 66, G – Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051. Tel : 022 68643101

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The Authorized Officer of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**)(IHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **08.02.2019** calling upon the Borrowers **MR. GAJENDER KUMAR ALIAS GAJENDRA KUMAR PROPRIETOR SHUBHAM (TRANSPORT) ASSOCIATES, SATENDER KUMAR ALIAS SATENDRA KUMAR, BALO DEVI ALIAS BALA DEVI and ANITA DEVI** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 26,65,526/- (Rupees Twenty Six Lakhs Sixty Five Thousand Five Hundred Twenty Six Only)** against Loan Account No. **HLAPHDW0252126** as on **08.02.2019** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice. Further the IHFL has assigned all its rights, title and interest of the above loan account in favor of **Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.** (“**ACRE**”) by way of an Assignment Agreement dated **27.06.2023** read with Rectification Agreement dated **04.08.2023**.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken **possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06.11.2025**.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.** for an amount of **Rs. 26,65,526/- (Rupees Twenty Six Lakhs Sixty Five Thousand Five Hundred Twenty Six Only)** as on **08.02.2019** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY (IES)


H. NO. 412, ADMEASURING 1007 SQ. FT., (93.58 SQ. MTRS), GALI NO. 5, AMBEDKAR NAGAR COLONY, JWALAPUR, DISTRICT HARIDWAR-249407, UTTARAKHAND AND BOUNDRIES OF LAND AREAS FOLLOW:

EAST : HOUSE OF SURESH WEST : ROAD 14 FEET
NORTH : ROAD 16 FEET SOUTH : HOUSE OF DHIMAN

Sd/-
Authorised Officer

Date : 06.11.2025 **Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.**
Place: HARIDWAR **(102-TRUST)**

For any grievance you may contact **Mr. Mohd Shariq Malik**, Grievance Redressal Officer, Phone No. 011-66115609, Email: complaint@acreindia.in. The detailed policy on Grievance Redressal Mechanism within the organisation can be accessed at <https://www.acreindia.in/compliance>.



AJMERA REALTY & INFRA INDIA LIMITED
CIN: L27104MH1985PLC035659
Registered Office: Citi Mall, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053.
Tel No: +91 22 6698 4000 Fax No.: +91 22 2632 5902
E-mail: investors@ajmera.com Website: www.ajmera.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Ajmera Realty & Infra India Limited ("Company"), pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2") read with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide various general circulars issued by MCA ("Circulars"), including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and, approval of the Members of the Company sought for the following Ordinary Resolution via Postal Ballot through remote e-voting process (remote e-voting):

Sr. No.	Description of resolution	Type of Resolution
1.	To consider and approve sub-division / split of nominal value of equity shares of the Company and consequent alteration of Capital Clause of Memorandum of Association of the Company	Ordinary

Members are hereby informed that:

- The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, November 12, 2025 and shall end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, December 11, 2025. The remote e-voting module shall be disabled thereafter by National Securities Depositories Limited (NSDL). Once the vote on a resolution is cast by a member, no change will be allowed subsequently.
- The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to avail remote e-voting facility is Friday, October 31, 2025. The members whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility.
- In compliance with the MCA Circulars, the hard copy of Notice, Postal Ballot Form and prepaid business reply envelope have not been sent to the members. Hence, the members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. The Company has engaged NSDL to provide a remote e-voting facility.
- The Company completed the dispatch of Notice through email to the members on Monday, November 10, 2025.
- The Notice along with the explanatory statement is available on the website of the Company www.ajmera.com on the website of e-voting agency NSDL www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com.
- The detailed procedure / instructions on the process of remote e-voting are specified in the Notice.
- Manner of registering / updating email address:

Physical holding	Members, holding shares in physical mode are requested to get their email address registered at Investor.helpdesk@in.mpsm.mtfm.com
Demat holding	Members, holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email address with their respective Depository Participants.
- The Board of Directors has appointed Mr. Haresh Sanghvi, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 2259), as Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.
- The Resolutions, if passed, shall be deemed to have been passed on Thursday, December 11, 2025, i.e. last date of remote e-voting process. The results of voting through Postal Ballot (through remote e-voting process) along with scrutinizer's report will be announced on or before two working days of conclusion of remote e-voting process. The same will be displayed on the website of the Company viz www.ajmera.com and shall also be communicated to the Stock Exchanges i.e BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited where the Company's Equity shares are listed and made available on their respective website viz www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available for members in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on call at 022 - 4886 7000.

For Ajmera Realty & Infra India Limited
Sd/-
Manoj I. Ajmera
Managing Director

Place: Mumbai
Date: November 11, 2025

Superintending Engineer 14th Circle HPPWD Rohru
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Sr. No.	District	RIDF	Name of work	Estimated Const. Cost (in lacs)	Including GST Maint. Cost (in lacs)	Total cost (in lacs)	Period of completion (in lacs)	Bid Security
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shimla	XXXX	Up-gradation of Badiyara to Dhakgaon village road km 0/00 to 12/730(SH- Construction of formation cutting, Cross drainage, Protection work, Metalling and taring, Paver Blocks, Road Furniture and Dumping Structure in km 0/00 to 12/730 (Portion 6/00 to 12/730) Under NABARD RIDF-XXXX	828.79	52.65	881.44	18 month	17.63

- Date of release of invitation for bids through e-procurement 13.11.2025
- Cost of bid from Rs.10,000/-per job (Non-refundable)
- Availability of Bid Document and mode of submission: - The bid document is available online and bid should be submitted online on website <http://www.hppwdtenders.gov.in> .The bidder would be required to register in the website which is free of cost.
- Last date/ Time for receipt of bid through e-tendering last date/time for receipt of bids through e-tendering on dated 19.11.2025 up to 6:00PM
- The technical qualification part of the bids will be opened online at 11:00 A.M. on 20 November. 2025.
- Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

(Pramod Kumar Upreth)
Superintending Engineer
14th circle HPPWD Rohru

4271_2025-2026

Mahindra HOME FINANCE

Corporate Office : Unit No. 203, 2nd Floor, Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade Station, Kamani Junction, LBS Main Road, Kurla West, Mumbai-400070

Registered office : Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai, Maharashtra - 400 018
CIN : U65922MH2007PLC167917

We hereby notify the Shifting of the below branches with effect from 09.02.2026

Closing Branch Address (From)	Shifting Branch Address (To)
JANAKPURI : 2ND FLOOR, 214, MAHATTA TOWERS, 8-1 BLOCK, COMMUNITY CENTER, JANAKPURI, NEW DELHI - 110009	2ND FLOOR, ABOVE KAPILA ELECTRONICS, COMMUNITY CENTRE, JANAKPURI, DELHI - 110002
NSP : 712-A, 7TH FLOOR, P.P. TRADE CENTRE, NETAJI SUBHASH PLACE, PITAMPURA, DELHI, NCT OF DELHI - 110034	801 SITUATED AT GOPAL HEIGHTS, 8TH FLOOR, NETAJI SUBHASH PALACE, PITAMPURA, DELHI - 110034
GURUDWAR : SCF-23, 1ST FLOOR SECTOR-14, OLD DELHI, GURUDWAR ROAD, GURUDWAR, HARYANA - 122001	3RD FLOOR, UNIT NO. 324, DLF PHASE 1, GURUDWAR, HARYANA - 122002
HISAR : 2ND FLOOR SCF 80, COMMERCIAL URBAN ESTATE -2, HISAR HARYANA 125005	2ND FLOOR SCF 39, COMMERCIAL ESTATE -2, NEAR JINDAL SHOWK, HISAR, HARYANA - 125001


Closure of below Branches

KARNAL : 1st floor SCD 17 ,HSIDC SEC-3 G T ROAD, KARNAL HARYANA 132001	PANIPAT- UNIT NO 301, 3RD FLOOR, SUBARSHAN TOWER, MAHAVIR COLONY, NEAR MC OFFICE, PANIPAT, HARYANA-132103
--	---

The operations from the above mentioned branch shall be shifted after the effective date. All the customers are requested to make a note of the same.

DATE : 11.11.2025

AUTHORIZED OFFICER,
MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIMITED



Punjab State Power Corporation Limited
(Regd Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001)
Corporate identity Number U40109PB2010SGC033813 Website: www.pspcl.in,
Phone no. 01881-275289 E-mail: se-hq-ggsstsp-ropar@pspcl.in

Press (Open) Tender Enq. No.682/P-3/EMP-W-13170 Dated 06.11.25

Dy.Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-3) GGSSTP, Roopnagar invites Press Tender for dispose off the sludge lying in the diggies and trenches along the decantation track at GGSSTP, Rupnagar.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to PSPCL website www.pspcl.in from 07.11.25 from 05:00 P.M. onwards.

Note:- Corrigendum & addendum, if any will be published online at PSPCL website www.pspcl.in

RTP - 118/25

1079/12/2025-26/4830



NMDC LIMITED
(A Government of India Enterprises)
'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad – 500 028. CIN - L31100AP1958GOI001674

CONTRACTS DEPARTMENT

Tender Enquiry No.: HO(Contracts)/NCP&DHCS/DEP-13/285 Dated:11/11/2025

NMDC Limited, a "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites **online bids** through **MSTC Portal** from experienced, reputed and competent **domestic bidders** for the work of

a. "Development of feeding system, suitable conveying system with 10 MTPA capacity for transportation of iron ore from Deposit-13 Mine to MV Railway Siding and discharging at MV Railway Siding at Kirandul, Dantewada, Chhattisgarh on Build-Operate-Transfer (BOT) – Toll Basis",

and

b. "The operation & maintenance of the developed facilities for an estimated period of 15 years from date of commissioning, extendable by another 5 years on mutual consent basis".

The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from **10/11/2025 to 08/12/2025** from following website links:

- NMDC website - <https://nmcdportals.nmdc.co.in/nmcdctender>
- Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) <http://www.eprocure.gov.in/> epublish/app and
- MSTC portal - <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> and search NMDC Tender Event No. **NMDC/Head Office/Contract/37/25-26/ET470 [DHC from DEP 13 to MV Siding]**
- For further help refer to 'vendor guide' given in MSTC website.

The bidders are requested to submit their bids online through **MSTC portal only**. The details of submission of bid through online are given in NIT. The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website / CPP Portal / MSTC website for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarification, R.B.Pradhan, AGM (Mining), Transformation & Innovation Department, NMDC Limited, Hyderabad can be contacted through Telephone No. +91 9406404938, E - Mail : rbpradhan@nmdc.co.in

Executive Director (Works)

Dynamic Portfolio Management & Services Limited
CIN: L74140DL1994PLC0304881
Registered Office : 1403, Vikram Tower 16, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Website: <http://dynamicwealthservices.co.in/> / Phone: 9012725530, Email: dpsm.kolkata@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH, SEPTEMBER , 2025

Sl No	Particulars	FOR THE QUARTER ENDED As On 30.09.2025	Corresponding 3 Months ended in the previous Year as on 30.09.2024	Preceding 3 Months Quarter Ended 30.06.2025	Year to Date Figure as on 30.09.2025	Previous Year Ending 31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	21.58	0.09	15.51	17.86	78.30
2	Net Profit / (Loss) For the period before tax (before Extraordinary items)	2.34	(15.59)	15.51	17.86	16.78
3	Net Profit / (Loss) For the period before tax (after Extraordinary items)	2.34	(15.59)	15.51	17.86	16.78
4	Net Profit / (Loss) For the period after tax (after Extraordinary items)	2.34	(15.59)	15.51	17.86	16.78
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit) / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.75	(15.59)	11.62	13.38	12.33
6	Equity share capital @ Rs. 10/- each	1,161.29	1,161.29	1,161.29	1,161.29	1,161.29
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 each)					
	Basic :	0.02	(0.13)	0.10	0.12	0.11
	Diluted :	0.02	(0.13)	0.10	0.12	0.11

Notes:

- The above quarterly results have been approved by the audit committee and approved by the Board of Directors in its board meeting held on 23rd July, 2024 and the same is filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.dynamicwealthservices.co.in
- The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and accordingly, these financial results together with the results for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended by the "Listing Regulations". Any application guidance / clarifications / directions issued by the Reserve Bank of India or other regulators are implemented as and when they are issued / applicable.
- In compliance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a limited review of financial results for the quarter ended 30th June 2023 has been carried out by the Statutory Auditors.
- The Company is in the business of NBFC and as such there are no separate reportable segments as per Indian Accounting Standard "Operating Segments" (Ind AS 108) and thus, segment reporting under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is not applicable. Hence, information relating to primary segment (including segment revenue, segment results, segment assets and segment liabilities) are not required to be disclosed.
- Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year classification.

For and on behalf of the Board of Directors
Dynamic Portfolio Management & Services Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Director
DIN: 00025324

Place : New Delhi
Date : 10.11.2025



Himatsingka

SPECIAL WINDOW FOR SHAREHOLDERS FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a Special Window has been opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 for the re-lodgement of transfer requests pertaining to physical shares.

This facility is available for transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 that were rejected/ returned/ not attended due to deficiencies in documents/ process/ or otherwise. All such securities re-lodged during this period (including pending cases) shall be issued only in demat mode.

Shareholders who missed the earlier deadline of March 31, 2021 may submit the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at: KFin Technologies Limited, Unit: Himatsingka Seide Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500032 Tel: 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.com

For Himatsingka Seide Limited
Bindu D.
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Bengaluru
Date: November 10, 2025

Himatsingka Seide Limited
Registered Office: No. 4/ 1-2, Crescent Road, Bengaluru - 560 001
Corporate Office : 10/24 Kumara Krupa Road, High Grounds, Bengaluru - 560 001
Phone: +91-80-42578000 Email: investors@himatsingka.com
Website: www.himatsingka.com
CIN: L17112KA1985PLC006647

INSPIRED EXCELLENCE



CELLO WORLD LIMITED
(Formerly known as CELLO WORLD PRIVATE LIMITED)
Regd off.: 597/2A Somnath Road, Dabhel, Nani Daman - 396210, Daman & Diu
CIN : L25209DD2018PLC009865 Contact No.: +91 22 6997 0000
Website: www.corporate.celloworld.com Email: grievance@celloworld.com

UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Unaudited Financial Results (Consolidated & Standalone) alongwith Limited Review Reports of the Statutory Auditor of the Company for the second quarter ended September 30, 2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on November 10, 2025.

The full format of Unaudited Financial Results (Consolidated & Standalone) along with Limited Review Reports of the Statutory Auditor is available on the website of BSE at www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com on the Company's website at www.corporate.celloworld.com.

In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For and on behalf of the Board of Directors
CELLO WORLD LIMITED
Sd/-
Pradeep G Rathod
Chairman & Managing Director
DIN: 00027527

Place: Mumbai
Date: November 10, 2025



DIAMOND POWER INFRASTRUCTURE LIMITED


Registered Office : Phase II, Village : Vadadala, Taluka : Savali, Vadodara - 391520 || Phone : 02667- 251354 / 251516
Email ID : cs@dicabs.com || Website : www.dicabs.com || CIN : L31300GJ1992PLC018198

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2025

In compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of Diamond Power Infrastructure Limited ("Company") at their meeting held on Monday, November 10, 2025 approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2025 ("Results")

The results, along with the Limited Review Report (Standalone and Consolidated) by M/s. Naresh and Co. Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company are available on the website of the Company at <https://dicabs.com/investor/quarterly-results/> and websites of the Stock Exchanges, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For **Diamond Power Infrastructure Limited**
sd/-
Samir Naik
Chief Financial Officer & Whole-time Director - DIN : 11208141

Place : Ahmedabad
Date : November 10, 2025


VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS LIMITED
[CIN : L24110MH1994PLC076156]
Registered Office: E/27, Commerce Center 78, Tardeo Road, Mumbai-400034
Phone No.: 022-6140 6666; Fax No.: 022- 23521980
Website: www.vidhifoodcolors.com; Email id: mitesh.manek@vidhifoodcolors.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2025
(Rupees in Lakhs)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended September 30, 2025 (Un-Audited)	Half year Ended September 30, 2025 (Un-Audited)	Quarter Ended September 30, 2024 (Un-Audited)	Quarter Ended September 30, 2025 (Un-Audited)	Half year Ended September 30, 2025 (Un-Audited)	Quarter Ended September 30, 2024 (Un-Audited)
Total income from operations	7,567.70	16,407.32	9,206.35	7,566.91	16,406.53	9,206.35
Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,500.64	3,217.76	1,361.54	1,486.49	3,201.85	1,354.45
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,500.64	3,217.76	1,361.54	1,486.49	3,201.85	1,354.45
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,070.08	2,342.13	1,039.36	1,055.93	2,326.22	1,032.27
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	1,068.71	2,339.38	1,039.62	1,054.56	2,323.47	1,032.53
Equity share capital (Face Value of Equity Share Re. 1/-Per Share)	499.45	499.45	499.45	499.45	499.45	499.45
Other Equity	30,551.46			30,434.06		
Earnings Per Share (of Re.1/- each) (for continuing operations) (EPS for the quarter not annualised)						
Basic (Rs.):	2.14	4.68	2.08	2.11	4.65	2.07
Diluted (Rs.):	2.14	4.68	2.08	2.11	4.65	2.07

Note :

- The Results for the quarter and Half Year ended September 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on November 10, 2025. The Statutory Auditors of the Company has carried out audit of the aforesaid results in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company operates in single business segment namely manufacturing and trading of food colors and chemicals. Hence, no separate disclosure as per "Ind AS-108" is required for the Operating segment.
- The Board of Directors at its meeting held on September 10, 2025, has recommended Interim Dividend of Rs. 1.50/- per equity share of Re. 1/- each fully paid up, (i.e. 150%), for the Financial Year 2025-26 aggregating to Rs. 749.18 Lakhs.
- Previous periods' figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable with the current period/year.
- The above is an extract of detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the website of BSE Ltd. and NSE and also at the Company's website at (<https://vidhifoodcolors.com/investor-relation/financial-results/>). The same can also be accessed by scanning the QR code provided below.



For Vidhi Specialty Food Ingredients Limited
Sd/-
Bipin M. Manek
Chairman & Managing Director
DIN: 00416441

Place : Mumbai
Date : September 10, 2025

